



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1939 (श10)
(सं0 पटना 203) पटना, सोमवार 12 मार्च 2018

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

28 जून 2017

सं० 705—जहानाबाद जिलान्तर्गत श्री दुर्गा मंदिर, काको मोड़, त्रिमुहानी, जिला—जहानाबाद पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं० 4028 है।

इस न्यास से संबंधित एक आवेदन दिनांक 10.01.17 को श्री दामोदर प्रसाद एवं स्थानीय जनता की ओर से पर्षद को प्राप्त हुआ, जिसमें सूचित किया गया कि श्री दामोदर प्रसाद की अध्यक्षता में मोहल्लेवासियों की निगरानी में 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया। प्राप्त आवेदन के आलोक में अनुमंडलाधिकारी, जहानाबाद को पर्षदीय पत्रांक—2777, दिनांक 27.01.17 एवं थानाध्यक्ष, जहानाबाद को पर्षदीय पत्रांक—2778, दिनांक 27.01.17 द्वारा स्थानीय जनता द्वारा प्राप्त नामों का सत्यापन कराकर पर्षद को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। पर्षद को एक अन्य आवेदन श्री विजय कुमार सिंह का भी प्राप्त हुआ, जिसमें भी न्यास समिति हेतु नाम प्रेषित किये गए। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद ने अपने पत्रांक—147/गो०, दिनांक 04.01.17 में प्रतिवेदित किया कि न्यास स्थल पर शांति—व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा— 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है। उभय पक्षों के बीच विवाद होने की बात भी लिखी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्रांक—वी—34/17218/गो०, दिनांक 18.02.17 द्वारा श्री दामोदर प्रसाद के आवेदन में वर्णित सदस्यों के नामों का सत्यापन अंचलाधिकारी, जहानाबाद द्वारा करवाकर समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की। श्री दामोदर प्रसाद ने अपने आवेदन 03.03.17 द्वारा चयनित सदस्यों का सत्यापन पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद द्वारा करवाकर मूल रूप में प्रेषित किया। पर्षदीय पत्रांक— 3244, दिनांक 30.03.17 द्वारा दोनों सूची श्री दामोदर प्रसाद व श्री विजय कुमार सिंह को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा न्यास समिति गठन हेतु प्रेषित किया गया। थानाध्यक्ष, जहानाबाद द्वारा अपने पत्रांक—डी०आर० 1295/17, दिनांक 16.03.17 द्वारा श्री दामोदर प्रसाद की सूची का चरित्र—सत्यापन कर कार्यालय को प्रेषित किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद ने अपने ज्ञापांक—385/गो०, दिनांक 18.03.17 द्वारा श्री दामोदर प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति को कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद ने अपने पत्रांक—वी34/17 750/गो०, दिनांक 01.06.17 द्वारा न्यास समिति का गठन का निर्णय पर्षद के स्तर से किये जाने का अनुरोध किया।

उक्त परिस्थिति में न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालन के लिए नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा-8 (क) सह पठित धारा-32 (1) एवं 81 (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री दुर्गा मंदिर, काको मोड़, त्रिमुहानी, जहानाबाद** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री दुर्गा मंदिर न्यास योजना, काको मोड़, त्रिमुहानी, जहानाबाद”** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री दुर्गा मंदिर न्यास समिति, काको मोड़, त्रिमुहानी, जहानाबाद”** जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक् रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। यह विवरणी मार्गदर्शिका के आलोक में देय होगा।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तारित भूमि, यदि कोई हो तो, की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|--|--------------|
| (1) श्री दामोदर प्रसाद वल्द स्व० शिव शंकर साव, काको मोड़, था०+पो०+जिला-जहानाबाद | — अध्यक्ष |
| (2) श्री मोतीलाल गुप्ता वल्द स्व० हीरा लाल, काको मोड़, पो०+था०+जिला-जहानाबाद | — सचिव |
| (3) श्री रामशंकर प्रसाद वल्द नारायण साव, पटना रोड, गांधी मार्केट, जहानाबाद | — कोषाध्यक्ष |
| (4) डॉ० अशोक कुमार वल्द किशोर पासवान, ऊँटो, था०+पो०+जिला- जहानाबाद | — सदस्य |
| (5) श्री पंकज कुमार वल्द रामनरेश प्रसाद, काको मोड़, था०+पो०+जिला-जहानाबाद | — सदस्य |
| (6) श्री राम ईश्वर कुमार वल्द स्व० सुवंश साव, काको मोड़, था०+पो०+जिला-जहानाबाद | — सदस्य |
| (7) श्री राकेश रंजन वल्द अरविन्द प्रसाद, काको मोड़, था०+पो०+जिला-जहानाबाद | — सदस्य |
| (8) श्री विनोद कुमार वल्द श्री अवधेश प्रसाद, काको मोड़, था०+पो०+जिला-जहानाबाद | — सदस्य |
| (9) श्री प्रमोद सिंह वल्द श्री नंदेश्वरी कुमार सिंह, माधव नगर, गली नं०-1, काको रोड, जहानाबाद | — सदस्य |
| (10) श्री शिवा जी केशरी वल्द श्री जगदीश प्रसाद केशरी, पी०जी० रोड, जहानाबाद | — सदस्य |
| (11) श्री किशोरी कुमार वल्द स्व० तुलसी प्रसाद, काको रोड, था०+पो०+जिला-जहानाबाद | — सदस्य |

12. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

विश्वासभाजन,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 203-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>